

No. of Printed Pages : 8

BPVI-003

**DIPLOMA IN VALUE ADDED
PRODUCTS FROM FRUITS AND
VEGETABLES
(DVAPFV)**

Term-End Examination

June, 2025

**BPVI-003 : FOOD CHEMISTRY AND
PHYSIOLOGY**

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.

1. Write short notes on any two of the following : $5 \times 2 = 10$
 - (a) Optical rotation
 - (b) Antioxidants as food additive
 - (c) Intermediate moisture foods

2. (a) Fill in the blanks : $5 \times 1 = 5$

(i) is prepared by
fermentation of palm trees sap.

(ii) (microorganism) is
used to ferment vegetables to
produce lactic acid.

(iii) can be avoided by pre-
harvest spray of calcium.

(iv) Hardness of water is measured as
PPM of

(v) is caused due to
deficiency of Vitamin D in
children.

(b) Describe the use of acidulants in
various food applications. 5

3. Explain the process of preparing vinegar
until bottling. 10

4. Differentiate between the following :

$5 \times 2 = 10$

(a) Vermouth and Brandy

(b) Climacteric and Non-climacteric fruits

- (c) Use of Ethephon and Potassium permanganate
- (d) High and low methoxy pectin
- (e) Cellulose and Starch
5. (a) Give examples of the following : $5 \times 1 = 5$
- (i) Two ways of removing ethylene
 - (ii) Two vegetable gums
 - (iii) Two non-nutritive sweeteners
 - (iv) Two aerobic fermentation
 - (v) Two fermented vegetables preparations
- (b) Discuss classification of fruit into various categories. 5
6. (a) Match the following : $5 \times 1 = 5$

Column I**Column II**

- | | |
|----------------|--------------------|
| (1) ACC | (a) Colourant |
| (2) Maturation | (b) Molasses |
| (3) Staling | (c) Ethylene |
| (4) Rum | (d) Wine barrels |
| (5) Annato | (e) Retrogradation |

- (b) What is meant by chilling injury ? How can we prevent its occurrence ? 5
7. Describe the undesirable effects of ethylene during storage of fruits and vegetables. How can we reduce this effect ? 10
8. How can mineral deficiency lead to disorders in fruits development ? Describe with examples. 10

BPVI-003

फलों एवं सब्जियों से मूल्य संवर्धित

उत्पादों में डिप्लोमा

(डी.वी.ए.पी.एफ.वी.)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2025

बी.पी.वी.आई.-003 : खाद्य रसायन और कार्यिकी

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

$$5 \times 2 = 10$$

- (अ) ध्रुवण घूर्णन
- (ब) खाद्य योजक के रूप में प्रतिअॉक्सीकारक
- (स) मध्यवर्ती आर्द्रता खाद्य पदार्थ

2. (अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : $5 \times 1 = 5$

(i) ताड़ के रस को किण्वत करके बनाते हैं।

(ii) लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए किण्वत सब्जियों में (सूक्ष्मजीवों) का उपयोग किया जाता है।

(iii) तुड़ाई से पहले कैल्शियम के छिड़काव से को दूर किया जा सकता है।

(iv) जल की कठोरता को के पी.पी.एम. के रूप में मापा जाता है।

(v) विटामिन 'डी' की कमी से बच्चों में नामक रोग हो जाता है।

(ब) विभिन्न खाद्य अनुप्रयोगों में अम्लीकारकों के उपयोग का वर्णन कीजिए। 5

3. शुरू करने से लेकर बोतल में बंद करने तक सिरका बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। 10

4. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए : $5 \times 2 = 10$

(अ) सुरभिरा और ब्राण्डी

(ब) संकटकाल और गैर-संकटकाल फल

- (स) एथीफोन और पोटैशियम परमैंगनेट का उपयोग
- (द) उच्च और निम्न मेथोक्सिल पेक्टिन
- (य) सेलुलोज और स्टार्च
5. (अ) निम्नलिखित के उदाहरण दीजिए : $5 \times 1 = 5$
- एथिलीन को दूर करने के दो तरीके
 - दो वनस्पति गोंद
 - दो अपोषक मिठासकारी तत्व
 - दो वायुवीय किण्वन
 - दो किण्वत सब्जियाँ (खाद्य पदार्थ)
- (ब) फलों के विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। 5
6. (अ) निम्नलिखित का मिलान कीजिए : $5 \times 1 = 5$
- | कॉलम I | कॉलम II |
|--------------|-----------------------|
| (1) ए.सी.सी | (a) रंगक |
| (2) परिपक्वन | (b) शीरा (मोलैसेज) |
| (3) पर्युषण | (c) एथिलीन |
| (4) रम | (d) शराब के पीपे |
| (5) एनाटो | (e) पश्चक्रमण/पश्चगमन |

- (ब) द्रुतशीतन क्षति से क्या तात्पर्य है ? इसे घटित होने से किस प्रकार रोका जा सकता है ? 5
7. फलों एवं सब्जियों के भंडारण के दौरान एथिलीन के अवांछनीय प्रभावों का वर्णन कीजिए। इस प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है ? 10
8. खनिज तत्वों की कमी से आगे चलकर फलों के विकास में किस प्रकार विकृति आ जाती है ? उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए। 10

× × × × ×